

अनुभाग अधिकारी/राजपत्रित अधिकारी की गोपनीय रिपोर्ट का प्रारूप  
मन्त्रालय/विभाग/कार्यालय का नाम ..... से .....  
तक की अवधि/वर्ष के लिए रिपोर्ट

## प्रथम भाग

### व्यक्तिगत विवरण

(मन्त्रालय/विभाग/कार्यालय द्वारा भरा जाएगा)

1. अधिकारी का नाम और पद नाम .....  
2. जन्म तिथि .....  
3. प्रथम नियुक्ति की तिथि .....  
4. वर्तमान पद पर नियुक्ति की तिथि .....  
5. स्थाई/अर्धस्थाई/अस्थाई .....  
6. विचाराधीन वर्ष/ अवधि के दौरान किस अनुभाग/  
विभाग/मन्त्रालय में सेवा की है और प्रत्येक में सेवा  
की कालावधि .....  
7. रिपोर्ट के वर्ष/अवधि के दौरान अवकाश पर गए/  
रहने की कालावधि .....  
8. रिपोर्ट की अवधि/वर्ष के दौरान लिए गए प्रशिक्षण  
का विवरण, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम की अवधि और  
संस्थान का नाम भी बताएं .....  
9. पूर्व तीन नियुक्ति स्थान अवधि सहित  
(क) .....  
(ख) .....  
(ग) .....  
10. कर्मचारी का स्थाई पता .....  
11. क्या कर्मचारी जनजातीय क्षेत्रा/दुर्गम क्षेत्रा संवर्ग में  
कार्यरत रहा है यदि हाँ, तो अवधि दर्शाएं .....  
12. क्या विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण की है अथवा नहीं .....

### द्वितीय भाग

(प्रतिवेदन अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)

13. कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का संक्षिप्त सार  
(50 शब्दों से अधिक में न हो)
14. प्राथमिकता के आधार पर कार्य की उन आवश्यक मुद्दों को विनिर्दिष्ट करें जिनमें रिपोर्ट की अवधि या  
वर्ष के दौरान परिमाणात्मक/वास्तविक/वित्तीय लक्ष्य/उद्देश्य/ध्येय आपके लिए  
निर्धारित किया गया था या आपने स्वयं निर्धारित किया था।

कार्य की मद्द	वास्तविक या वित्तीय लक्ष्य या उद्देश्य या ध्येय	उपलब्धियां
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

15 (क) कार्य की प्रत्याशित गुणवता या परिणाम में .....  
आई कमी की दशा में कारण स्पष्ट करें।

(ख) लक्ष्य/ध्येय/उद्देश्य में अत्याधिक प्रभावशाली .....  
उपलब्धि होने की स्थिति में आपका क्या  
योगदान रहा ? स्पष्ट करें ।

स्थान ..... हस्ताक्षर .....

तारीख ..... पूरा नाम .....

..... पदनाम .....

### तृतीय भाग

(रिपोर्ट लिखने वाले अधिकारी द्वारा मूल्यांकन)

नोट: रिपोर्ट लिखने वाले अधिकारी द्वारा प्रत्येक खाने के समक्ष अपना मूल्यांकन रेखांकन द्वारा नहीं दर्शाया जाना चाहिए अपितु समस्त खानों के समक्ष सुस्पष्ट शब्दों में सारगर्भित टिप्पणी की जानी चाहिए ।

16. क्या आप अधिकारी द्वारा रिपोर्ट के द्वितीय भाग में दर्शाए गए कार्य के सार और विशेषत अधिकारी द्वारा उल्लेखित विशिष्ट उपलब्धि के विवरण से, यदि कोई हो, सहमत हैं ? यदि नहीं, तो अपनी असहमति का कारण और उसकी मात्रा भी बताएं ।

17. स्वास्थ्य की स्थिति :  
कृपया दर्शाए कि क्या:-  
(क) अधिकारी शारीरिक रूप से सक्रिय है और  
(ख) मानसिक रूप से सतर्क है .....

18. बुद्धिमता और ग्रहण शक्ति :  
(क) असामान्य और चाहे कितना भी जटिल मामला हो स्पष्ट ग्राहता रखता है .....  
(ख) विवेकशील है और शीघ्रता से मामले को सही रूप में परिग्रहण करता है .....

- (ग) कठिनता से परिग्रहण करता है .....  
 (ध) अत्याधिक मन्दबुद्धि और / या प्रायः  
     मामले में चूक करता है .....  
 19. नियमों, संहिताओं, नियमावलियों, निदेशों और  
     प्रक्रियाओं का ज्ञान .....  
 (क) असामान्यतः सम्पूर्ण कार्यालय के कार्य की  
     और प्रायः नियमों, संहिताओं, नियमावलियों  
     की अच्छी ग्राहता है और शाखा/संस्थ के  
     कार्य का पर्याप्त व प्रगाढ़ ज्ञान है .....  
 (ख) शाखा और सम्पूर्ण कार्यालय दोनों का ही  
     अच्छा ज्ञान है .....  
 (ग) यथोचित पर्याप्त .....  
 (ध) पर्याप्त नहीं .....  
 (ड) अच्छा नहीं .....  
 20. कार्य क्षमता :  
 (1) वर्णन की एकाग्रता, तथ्यों की प्रस्तुति  
     में परिशुद्धता और परीक्षण की सम्पूर्णता :  
 (क) अत्यधिक विश्वसनीय और कुशाग्रबुद्धि .....  
 (ख) समस्त सुसंगत वर्णनों पर विचारण करता है .....  
 (ग) लघु वर्णनों में भी अतिचिन्तित होने का  
     उन्मुख है और दृष्टिकोण खो बैठता है .....  
 (घ) छिछलेपन की ओर रुझान है .....  
 (2) विनिश्चय :  
 (क) उसके प्रस्ताव सदैव ठोस और  
     सुविचारित होते हैं । .....  
 (ख) विश्वसनीय .....  
 (ग) युक्तियुक्त दृष्टिकोण रखता है .....  
 (घ) अविश्वसनीय अनिश्चित या अपरिवर्तनीय  
     या छिछला या भ्रांत .....  
 (3) मामलों का प्रस्तुतिकरण और लिखित रूप में अभिव्यक्ति :  
 (क) अत्यधिक स्पष्ट, निश्चायक और तर्कसंगत .....  
 (ख) बहुत अच्छा और स्पष्ट व संक्षेप में अपने  
     विचारों को अभिव्यक्त करता है .....  
 (ग) कुछ अच्छा .....  
 (घ) मामलों को उचित रूप से प्रस्तुत करने की  
     योग्यता नहीं रखता है .....

- (4) टिप्पण और प्रारूपण की योग्यता :  
 (क) अत्युत्तम .....  
 (ख) बहुत अच्छा .....  
 (ग) अच्छा .....  
 (घ) औसतन .....  
 (ङ) कमज़ोर .....
- (5) कार्य निपटाने की स्फूर्ति  
 (क) बहुत स्फूर्ति .....  
 (ख) उचित रूप में स्फूर्ति .....  
 (ग) मन्दगति है और विलम्ब करने की ओर  
     झुकाव रखता है .....
- (6) विभिन्न संगठन और प्रणाली विवरणियों, बकाया  
 और लम्बित मामलों की विवरणियों को प्रस्तुत  
 करना और नस्तियों के अभिलेखन, अनुक्रमणिका  
 और छंटाई की ओर ध्यान :  
 (क) ठीक रूप से इन्हें तैयार करने और यथासमय  
     प्रस्तुत करने का ध्यान रखता है .....  
 (ख) युक्तियुक्त रूप से अच्छा और स्फूर्ति  
 (ग) अधिक नियमित नहीं है और निरन्तर  
     स्मरण करवाना और पर्यवेक्षण करना पड़ता है .....  
 (घ) इन विषयों में उदासीन है .....
21. उत्साह, परिश्रमशीलता और उत्तरदायित्व की भावना :  
 (क) असाधारण उत्साह और कार्यनिष्ठता दिखाता  
     है और अत्युत्तम पहल करता है .....  
 (ख) परिश्रमी और कर्तव्यनिष्ठ है और यथेष्ट  
     उत्साह और कार्यनिष्ठा और अच्छी पहल  
     दिखाता है .....  
 (ग) युक्तियुक्त रूप से कर्मिष्ठ और औसतन  
     पहल सहित अपने काम में रुचि रखता है .....  
 (घ) उत्तरदायित्व की भावना की कमी है और काम  
     के प्रति उदासीन है .....
22. कर्मचारीवृन्द का नियन्त्रण और प्रबन्ध :  
 (1) व्यवस्था और अनुशासन का अनुरक्षण और  
     विलम्ब अनुपस्थिति की जांच :  
 (क) अत्युत्तम .....  
 (ख) बहुत अच्छा .....  
 (ग) अच्छा .....  
 (घ) औसतन .....  
 (ङ) निकृष्ट .....  
 (2) आत्मविश्वास की प्रेरणा देने और कर्मचारीवृन्द  
     से श्रेष्ठ कार्य करवाने की योग्यता :  
 (क) अत्युत्तम .....  
 (ख) बहुत अच्छा .....

- (ग) अच्छा .....  
 (घ) औसतन .....  
 (ङ) निकृष्ट .....  
 (3) कर्मचारीवृन्द को प्रशिक्षित करने, उनकी सहायता करने और उन्हें परामर्श देने तथा अधीनस्थ कर्मचारियों को नियन्त्रित करने की योग्यता :  
     (क) अत्युत्तम .....  
     (ख) बहुत अच्छा .....  
     (ग) अच्छा .....  
     (घ) औसतन .....  
     (ङ) निकृष्ट .....  
 23. समय निष्ठा और उपस्थिति .....  
 24. अन्य टिप्पणि :  
     ( इस भाग को ऐसी अभियुक्तियों के लिए प्रयुक्त किया जाए जो उपर्युक्त को पूर्ण करने वाली या उससे सम्बन्धित या आनुपूरित करने वाली हो यहाँ पहले ऊपर कही गई बात को संदिग्ध रूप से दोहराने का प्रयास न किया जाए । यहाँ उन्हीं तथ्यों को निर्दिष्ट किया जाए जिनका रिपोर्ट करने वाला रिपोर्ट की अवधि के दौरान विशेष रूप से उल्लेख करना चाहे किन्तु उनका कोई पहलू प्रपत्रा में कहीं लक्षित न हुआ हो )  
 25. सत्यनिष्ठा (ईमानदारी) : .....  
     (गृह मन्त्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 51/4/64—ऐस्ट  
     (ए), तारीख 21 जून, 1965 में अन्तर्विष्ट अनुदेशों को ध्यान में रखा जाए )  
 26. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रति अधिकारी का आचार—व्यवहार .....  
 27. क्या अधिकारी राजभाषा (हिन्दी) के प्रयोग में अपनी रुचि रखता है ? .....

28. क्या कर्मचारी के बिरुद्ध कोई विभागीय जांच/न्यायालय मामला/सतर्कता मामला आदि लम्बित है । यदि हाँ, तो संक्षिप्त विवरण दिया जाए । .....

रिपोर्ट लिखने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम .....

पद .....

तिथि \_\_\_\_\_

चतुर्थ भाग

(पुनर्विलोकन अधिकारी द्वारा मुल्यांकन)

29. पुनर्विलोकन अधिकारी के नियन्त्राणाधीन की सेवा अवधि .....
30. क्या आप अधिकारी द्वारा रिपोर्ट के द्वितीय भाग में दर्शाए गए कार्य के सार के सम्बन्ध में रिपोर्ट करने वाले अधिकारी की अभियुक्तियों से सहमत हैं, यदि नहीं, तो रिपोर्ट करने वाले अधिकारी से अपनी असहमति का कारण और उसकी मात्रा भी बताएं .....
31. कार्य निष्पादन और गुणवत्ता का सर्वोपरि मुल्यांकन(अत्युत्तम/बहुत अच्छा/अच्छा /सन्तोष जनक/निकृष्ट
32. क्या अधिकारी में ऐसी विशिष्ट विशेषताएं हैं और/या कोई उत्कृष्ट गुण या योग्यता है जिनके कारण वह बिना अपनी बारी के उच्च. नियुक्ति के लिए उन्नत और विशेष रूप से चयनित किए जाने का औचित्य रखता है, यदि हाँ, तो उन विशेषताओं का संक्षेप में उल्लेख करें .....

पुनर्विलोकन अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम .....

पद .....

तिथि .....

पंचम भाग

(अग्रिम ज्येष्ठ अधिकारी, यदि कोई हो, के हस्ताक्षर)

प्रतिहस्ताक्षर करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम .....

पद .....

तिथि .....

हि.प्र.शिक्षा वा.गो.रि. अनुभाग अधिकारी/राजपत्रित अधिकारी वर्ग .....